



0846CH06



4

## भगवान के डाकिए



पक्षी और बादल,  
ये भगवान के डाकिए हैं,  
जो एक महादेश से  
दूसरे महादेश को जाते हैं।  
हम तो समझ नहीं पाते हैं  
मगर उनकी लाई चिट्टियाँ  
पेड़, पौधे, पानी और पहाड़  
बाँचते हैं।

हम तो केवल यह आँकते हैं  
कि एक देश की धरती  
दूसरे देश को सुगंध भेजती है।  
और वह सौरभ हवा में तैरते हुए  
पक्षियों की पाँखों पर तिरता है।  
और एक देश का भाप  
दूसरे देश में पानी  
बनकर गिरता है।

—रामधारी सिंह 'दिनकर'



## प्रश्न-अभ्यास



### कविता से

1. कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए।
2. पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन-कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए।
3. किन पंक्तियों का भाव है—  
 (क) पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं।  
 (ख) प्रकृति देश-देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है।
4. पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़-पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं?
5. “एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है”—कथन का भाव स्पष्ट कीजिए।



### पाठ से आगे

1. पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान-प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं?
2. आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए दस पंक्तियाँ लिखिए।
3. ‘हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका’ क्या है? इस विषय पर दस वाक्य लिखिए।



### अनुमान और कल्पना

डाकिया, इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब (डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू. WWW.) तथा पक्षी और बादल—इन तीनों संवादवाहकों के विषय में अपनी कल्पना से



एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप 'चिट्ठियों की अनूठी दुनिया' पाठ का सहयोग ले सकते हैं।

### शब्दार्थ

बाँचना	—	पढ़ना, सस्वर पढ़ना
आँकना	—	अनुमान करना
पाँख	—	पंख, पर
सौरभ	—	सुगंध, सुवास

